

Ref. No. - OIL/CO/SE/2025-26/25

July 23, 2025

Listing Department **BSE Limited,** Floor 25, P J Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001 Listing Department

National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, C-1 Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Scrip Code: 530135 Symbol: OPTIEMUS

Subject: Newspaper Clippings regarding information of Loss of Share Certificates

Dear Sir/Ma'am,

With reference to captioned subject, this is to inform you that pursuant to Regulation 39 and other applicable provisions, if any, of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/70 dated May 25, 2022, the Company has issued an advertisement in respect of loss of Share Certificates today i.e. on July 23, 2025 in the following newspapers:

- 1. Financial Express (English) All Editions
- 2. Jansatta (Hindi) Delhi NCR Edition

A copy of the published advertisement is enclosed herewith.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours truly,

For OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

Vikas Chandra Company Secretary & Compliance Officer

Enclosures: As Above

OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

CIN: L64200DL1993PLC054086

Reg. Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024 P.: 011-29840906-907 | Fax: 011-29840908 | www.optiemus.com

FINANCIAL EXPRESS

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

Container Corporation of India Ltd. (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

Rs: 104.72 Crore (Including taxes)

Tender No.: CON/AREA-1/TECH/RST-25/2025

Rs. 10,00,000/- (through online payment gateway to CONCOR)

From 23.07.2025 at 15:00 Hrs to 19:08.2025 (upto 17:00 Hrs)

Distinctive No(s).

FOR OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

Company Secretary & Compliance Officer

GGM/P&S/Area-1

Shares

800

Vikas Chandra

Rs. 1,000 through online payment gateway to CONCOR.

Rs. 3540/- (Inclusive of Taxes) through online payment

OPEN TENDER NOTICE (E-Tendering Mode only)

Online E-bids are invited for Design, Manufacture, Supply and Commissioning of 25 nos. of Loaded

Reach Stackers (RSTs) at specified terminals of CONCOR in Two Packet tendering system through

06.08.2025 at 11:00 Hrs

20.08.2025 at 17:00 Hrs

21.08.2025 at 11:00 Hrs Through e-Payment For eligibility criteria and other details please log into www.concorindia.com or

procure gov.in or www.tenderwizard.com/CCIL.Bidders are requested to visit the website regularly. CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons thereof. For

OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

CIN: L64200DL1993PLC054086

Registered Office: K-20, Second Floor, Lajpat Nagar - II, New Delhi-110024 Corporate Office: D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201307 Website: www.optiemus.com | E-mail: info@optiemus.com | Ph: 011-29840906 PRESS ADVERTISEMENT Notice is hereby given that the following Share Certificates have been reported as lost/ misplaced and the holder of such Share Certificates have applied to the Company/RTA for the

No(s).

0000660 Naresh Kumar Garg | 29705 - 29712 | 2969601 - 2970400

Any person(s) who has any claim(s) in respect of the above share certificates should lodge

such claim(s) with the Company 'Optiemus Infracom Limited' at its Corporate Office situated

at D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201307 or write at info@optiemus.com within

15 days of the publication of this NOTICE, after which no claim will be entertained and the

Company will proceed to issue Letter of Confirmation in lieu of Duplicate Share Certificates.

AUTOMOTIVE AXLES LIMITED

CIN: L51909KA1981PLC004198

Regd. Office: Hootagalli Industrial Area, Off Hunsur Road, Mysuru, Karnataka – 570 018. Tel - 0821-7197500 Email: sec@autoaxle.com Website: www.autoaxle.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE IS HEREBY given that SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025 allowed opening of a Special Window to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and rejected/returned due to deficiency in the documents.

Points to Ponder

How many days Special Window Open for re-lodgment	July 7, 2025 to January 6, 2026
Who are eligible to re-lodge the transfer requests	Investors whose transfer deeds were lodged prior to April 1, 2019 and rejected/returned/ not attended due to deficiency in documents.
How to re-lodge the transfer requests	Submit Original Transfer Documents, along with rectified, corrected or missing details to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA): Integrated Registry Management Services Private Limited No.30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003. Karnataka. Phone: 080-23460815-818. Email id: irg@integratedindia.in

The Shares that are re-lodged for transfer and under process of transfer or pending as on date shall be issued only in demat mode.

To update the KYC, the investors may find the required documents at the company's website https://www.autoaxle.com/investorupdates

Date: 221d July, 2025 Place: Mysuru

KALYANI

For Automotive Axles Limited Debadas Panda Company Secretary and Compliance Officer



Year ended

SAGAR CEMENTS LIMITED

Phone: +91 40 23351571, Fax: +91 40 23356573, Email: investors@sagarcements.in, Website: www.sagarcements.in STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

	1 (Parties Charles		STANDAL	ONE	CONSOLIDATED			
SI.		Quarte	Year Ended	Quarter Ended		Year Ended		
No.	Particulars	June 30, 2025 (Unaudited)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)	June 30, 2025 (Unaudited)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)	
1	Total Income from Operations	43,575	39,367	1,56,664	67,066	56,060	2,25,764	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,892	(533)	(11,734)	2,390	(4,755)	(25,636)	
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,892	(533)	(13,825)	2,390	(4.755)	(28,353)	
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,144	(376)	(8,548)	749	(3,220)	(21,668)	
5	Total comprehensive Income for the Period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,162	(400)	(8,476)	760	(3.243)	(21,621)	
6	Paid-up Equity share capital (Face Value Rs. 2/- Per share)	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	
7	Reserves excluding revaluation reserve as at Balance Sheet date	71,333	79,162	70,171	81,450	1,00,294	81,316	
8	Securities Premium Reserve	88,351	88,351	88,351	88,351	88,351	88,351	
9	Non-controlling interests		2.0		7,778	7,467	7,152	
10	Net Worth	1,62,298	1,70,127	1,61,136	1,80,193	1,98,726	1,79,433	
11	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt		2,308	1,154	- 10	2,308	1,154	
12	Outstanding Redeemable Preference Shares			-	£3	(40		
13	Debt Equity Ratio	0.32	0.30	0.30	0.86	0.74	0.80	
14	Earnings per share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic and Diluted:	0.88	(0.29)	(6.54)	0.57	(2.46)	(16.58)	
15	Capital Redemption Reserve		14.	19,	49	174-3	1 2	
16	Debenture Redemption Reserve	3. 3.±3	2.7		+1			
17	Debt Service Coverage Ratio	1.32	0.94	0.46	1.34	0.68	0.47	
18	Interest Service Coverage Ratio	2.97	2.30	1.67	2.32	1.52	1.22	

The above standalone and consolidated un-audited financial results of Sagar Cements Limited ("the Company") as reviewed by the Audit Committee have been approved by the Board of Directors at its meeting held on July 21, 2025. The statutory auditors of the Company have issued an unmodified conclusion in respect of the limited review of the quarter ended June 30, 2025.

Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the web site of the company at www.sagarcements.in and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and National

The financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2024 were reviewed by the predecessor auditors, who had expressed as unmodified review conclusion. The financial results of the Company for the year ended March 31, 2025 were audited by the predecessor auditors, who had expressed an unmodified audit opinion. For Sagar Cements Limited



Dr.S.Anand Reddy Managing Director

SML ISUZU LIMITED Regd. Office: Village Asron, Distt. Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr) - 144 533, Punjab. CIN: L50101PB1983PLC005516.

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

Website: www.smlisuzu.com, Email id: investors@smlisuzu.com, T: 91 1881 270155, F: 91 1881 270223

THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025 Rs. Crores, except per equity share data

		rour ciraca			
Particulars	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025	
	Unaudited	Audited (Refer note 2)	Unaudited	Audited	
Total income	847.95	773.10	747.26	2,405.05	
Net profit / (loss) for the period (before tax and exceptional items)	89.55	71.14	61.96	162.38	
Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional items)	89.55	71.14	61.96	162.38	
Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional items)	66.96	52.95	46.39	121.67	
Total comprehensive income for the period (comprising Profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	66,56	51.71	46.33	120.23	
Equity Share Capital	14.48	14.48	14.48	14.48	
Other equity (excluding revaluation reserves)				368.18	
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (Rs.) : 2. Diluted (Rs.) :	46.27 46.27	36.60 36.60	32.06 32.06	84.08 84.08	

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchange(s) (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and on Company's website (www.smlisuzu.com). The same can be accessed by scanning the QR Code provided below.
- The figures for the quarter ended 31 March 2025, as reported in these financial results, are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the end of third quarter of the relevant financial year. Also, the figures up to the end of the third quarter had only been reviewed and not subjected to audit





For and on behalf of the Board of Directors

Place: Chandigarh

Date: 22 July 2025

(Yasushi Nishikawa) Managing Director & CEO DIN: 11027072

ANDHRA CEMENTS LIMITED (A Subsidiary of SAGAR CEMENTS LIMITED)

CIN: L26942AP1936PLC002379

Regd, Office: Durga Cement Works, Durgapuram, Srinagar Post, Dachepalli Mandal, Palnadu District, Andhra Pradesh - 522 414 Website: www.andhracements.com, E-mail Id: investorcell@andhracements.com

₹ in lakhs										
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2025 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2025 (Unaudited) (Refer note 3)	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)					
1.	Total Income	9,953	8,947	6,339	27,405					
2.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax and Exceptional items	(2,962)	(4,365)	(3,608)	(16,825)					
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax but after Exceptional items	(2,962)	(4,991)	(3,608)	(17,451)					
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional items	(2,962)	(4,991)	(2,359)	(15,211)					
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	(2,966)	(5,004)	(2,360)	(15,226)					
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per share)	12		F25	9,217					
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	12		F#1	5,238					
8.	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)									
- 1	a) Basic	(3.21)	(5.41)	(2.56)	(16.50)					
	b) Diluted	(3.21)	(5.41)	(2.56)	(16.50)					
		Not Annualised	Annualised	Not Annualised	Annualised					

Note:

Place: Hyderabad

Date: July 21, 2025

The above unaudited financial results of Andhra Cements Limited ("the Company") as reviewed by the Audit Committee have been approved by the Board of Directors at its meeting held on July 21, 2025. The Statutory auditors of the Company has issued an unmodified conclusion in respect of the limited review of the quarter ended June 30, 2025.

- The above financials is an extract of the detailed format of the unaudited Financial results for the quarter ended June 30, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of unaudited financial results of the company for the quarter ended June 30, 2025 are available to the investors on the Company's website (https://www.andhracements.com) and on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).
- The figures for the quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures of the audited financials for the year ended March 31, 2025 and unaudited year to date published results for the nine months ended December 31 2024, which were subject to limited review by the statutory auditors. The financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2024 and quarter ended March 31, 2025 were reviewed by the predecessor auditors, who had expressed an unmodified review conclusion. The financial results of the Company for the year ended March 31, 2025 were audited by the predecessor auditors, who had expressed an unmodified audit opinion.

For Andhra Cements Limited

Dr. S. Anand Reddy

Managing Director Place : Mumbai Date: 21" July, 2025

CIN: L26942TG1981PLC002887 Regd. Office: Plot No. 111, Road No.10, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033.

		3	STANDAL	ONE	C	D	
SI.	MINGREDONATION	Quarte	r Ended	nded Year Ended		Quarter Ended	
No.	Particulars	June 30, 2025 (Unaudited)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)	June 30, 2025 (Unaudited)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	43,575	39,367	1,56,664	67,066	56,060	2,25,764
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,892	(533)	(11,734)	2,390	(4,755)	(25,636)
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,892	(533)	(13,825)	2,390	(4,755)	(28,353)
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,144	(376)	(8,548)	749	(3,220)	(21,668)
5	Total comprehensive Income for the Period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,162	(400)	(8,476)	760	(3,243)	(21,621)
6	Paid-up Equity share capital (Face Value Rs. 2/- Per share)	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614
7	Reserves excluding revaluation reserve as at Balance Sheet date	71,333	79,162	70,171	81,450	1,00,294	81,316
8	Securities Premium Reserve	88,351	88,351	88,351	88,351	88,351	88,351
9	Non-controlling interests				7,778	7,467	7,152
10	Net Worth	1,62,298	1,70,127	1,61,136	1,80,193	1,98,726	1,79,433
11	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt		2,308	1,154		2,308	1,154
12	Outstanding Redeemable Preference Shares	1 1		-	+6	(
13	Debt Equity Ratio	0.32	0.30	0.30	0.86	0.74	0.80
14	Earnings per share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic and Diluted:	0.88	(0.29)	(6.54)	0.57	(2.46)	(16.58)
15	Capital Redemption Reserve	1 6	14	19.	40	11-	1 12
16	Debenture Redemption Reserve	5.0	0.5	-	T.		
17	Debt Service Coverage Ratio	1.32	0.94	0.46	1.34	0.68	0.47
18	Interest Service Coverage Ratio	2.97	2.30	1.67	2.32	1.52	1.22

The above is an extract of the defailed format of Quarterly/Annual Financials Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and

Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Place: Hyderabad Date: 21.07.2025



LORDS CHLORO ALKALI LIMITED

CIN: L24117RJ1979PLC002099

REGD. OFFICE: SP-460, MATSYA INDUSTRIAL AREA, ALWAR (RAJASTHAN) - 301030 CORPORATE OFFICE: A - 281, FIRST FLOOR, DEFENCE COLONY, NEW DELHI - 110024 Tel.: 011-40239034, Email: secretarial@lordschloro.com Web: www.lordschloro.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025 (Rs in Lakhs Except EPS)

		Year ended			
PARTICULARS	June 30, 2025 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)	
Total income	10,046.61	7,990.64	6,553.22	27,181.47	
Net Profit / (Loss) for the period			2000 0000000		
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,402.55	356.33	204.22	815.29	
Net Profit / (Loss) for the period before tax			11.0.00000		
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,402.55	356.33	204.22	815.29	
Net Profit / (Loss) for the period after tax		he meneral	100000000000000000000000000000000000000	1-0700	
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,045.01	260.28	195.26	618.06	
Total comprehensive income for the period [(comprising profit/ (Loss)	W254455		0.040,600	0/50/000	
for the period and other comprehensive income (after tax))]	1,053.33	294.35	194.99	651.33	
Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- each)	2,515.39	2,515.39	2,515.39	2,515.39	
Other equity excluding revaluation reserve	100	86	180	133	
Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing operations) :	3008.6Ec		(500)	ALLOW	
a) Basic	4.15	1.03	0.78	2.46	
b) Diluted	3.93	1.00	0.78	2.37	

The above un-audited financial results have been reviewed and recommended by the audit committee and further considered & approved by the Board of Directors at their meeting held on 21th July 2025. These results are as per regulation 33 of the SEBI

(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, as amended. The Statutory Auditors have carried out limited review of these results for the quarter ended June 30, 2025. The above financial results have been prepared in accordance with the principles and procedures of Indian Accounting Standards ("Ind

AS") as notified under the Companies (India Accounting Standards) Rules, 2015 as specified in section 133 of Companies Act, 2013. As per Indian Accounting Standards (Ind AS) 108 "Operating Segment", the Company's business falls within a single business segment viz. Chloro alkali sector/production of Caustic Soda.

Provision for taxation is made at the effective income tax rates.

Figures of the previous period have been re-grouped/re-arranged and/or recasted wherever required.

Place: New Delhi Date: 21-07-2025

For Lords Chloro Alkali Limited Ajay Virmani (Managing Director) DIN: 00758726

Year ended

Quarter ended

TATA POWER RENEWABLE ENERGY

Tata Power Renewable Energy Limited Corporate Centre, 34 Sant Tukaram Road, Carnac Bunder, Mumbai-400009 Website: www.tatapower.com/renewables CIN: U40108MH2007PLC168314

EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2025 ₹ crore

170		100	C. C		
Sr. No.	Standalone	30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25
NO.	4 204 An Antimate Surface Contract	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
a.	Total Income from Operations	3,252.07	3,675.29	2,223.01	11,273.77
b.	Profit / (Loss) Before Exceptional Items and tax	596.96	444.02	331.46	1,538.14
C.	Profit / (Loss) Before Tax	596,96	197.02	331.46	1,151.14
d,	Net Profit / (Loss) for the period / year	442.94	76.82	262.16	464.96
е.	Total Comprehensive Income	414.65	46,04	244.45	402.04
f.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value: ₹10/-per share)	1,463.10	1,463.10	1,463.10	1,463.10
g.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	12,777.65	12,363.00	12,205.50	12,363.00
h.	Securities Premium Account	8,742.01	8,742.01	8,742.01	8,742.01
l	Networth	14,675.56	14,232.62	14,037.15	14,232.62
].	Capital Redemption Reserve	11.25	11.25	11.25	11.25
k	Debenture Redemption Reserve	99.05	99.05	99.05	99.05
1	Outstanding Debt	20,440.93	19,972.88	16,855,14	19,972.88
m	Earnings Per Equity Share (of ₹ 10/- each) (In ₹)				
	(i) Basic Earning Per Share- (In ₹)	3.03	0.53	1,80	3.18
	(ii) Diluted Earning Per Share- (In ₹)	3.03	0.53	1.80	3.18
n	Debt Equity Ratio (in times)	1.44	1.44	1.23	1.44
0	Debt Service Coverage Ratio (in times)*	1.83	1.27	1.44	1.33
р	Interest Service Coverage Ratio (in times)*	2.44	2.12	1.92	2.00
q	Current Ratio (in times)	0.90	0.82	0.93	0.83
ř	Long Term Debt to Working Capital (in times)	13.18	29.54	22,91	29.54
S.	Current Liability ratio (in times)	0.28	0.30	0.39	0.30
t.	Total Debts to Total Assets (in times)	0,49	0.49	0.45	0.49
u	Debtors' Turnover ratio (in number of days)	103	106	240	150
V.	Inventory Turnover ratio (in number of days)	37	.42	107	5:
w	Bad debts to Accounts Receivable Ratio (%)	0.46%	(0.22%)	0.70%	1.28%
X.	Operating margin (%)	21,91%	14.78%	21.84%	17.95%
y	Net Profit Margin (%) including exceptional item	13.62%	2.09%	11.79%	4.12%

- . The above financial results of Tata Power Renewable Energy Limited were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 21"July, 2025
- 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the Stock Exchange website www.nseindia.com and on the Company's website www.tatapower.com/renewables
- For other line items referred in Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange of India Limited and can be accessed on URL www.nseindia.com. * In case of quarterly numbers, ratios have not been annualised.

For and on behalf of the Board of TATA POWER RENEWABLE ENERGY LIMITED Sanjay Banga Chief Executive Officer and Managing Director

tendering mode.

Tendered Quantity

Cost of Document'

Pre-Bid Meeting

optiemus

Folio No.

Date: 22nd July, 2025

Place: Noida (U.P.)

S. No

Earnest Money Deposit (EMD)

Period of Tender Sale (online)

Date and time of opening of Bid

Tender processing fee (Non-refundable)*

Date and time of Submission of Bid

ssue of Duplicate Share Certificates:

Shareholder

complete details login www.tenderwizard.com/CCIL

Estimated Cost

Bid Reference

(₹ in lakhs)

International ™ Travel House

INTERNATIONAL TRAVEL HOUSE LIMITED CIN: L63040DL1981PLC011941

Regd. Office: Travel House, T-2, Community Centre, Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi - 110 017

Tel: 011-2601 7808 E-mail: Investor_TH@ith.co.in | Website: www.internationaltravelhouse.in

44th Annual General Meeting Members are hereby informed that the 44ⁿ Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Tuesday, 19th August, 2025 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means, in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with the Circulars issued by

the Ministry of Corporate Affairs, Government of India The Notice of the 44th AGM ('AGM Notice') and the Report and Accounts 2025, in conformity with the regulatory requirements, will be sent only through electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company / MCS Share Transfer Agent Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company ('RTA') or with the Depositories. These documents will also be available on the Company's website www.internationaltravelhouse.in, and on the website of BSE Limited www.bseindia.com

where the Company's shares are listed Members who are holding shares in the certificate form and have not registered their e-mail address with the Company / RTA are requested to register their email address by submitting a duly filled and signed Form ISR-1 (available on the Company's website) along with documents prescribed in the Form to RTA through e-mail at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com or by post to MCS Share Transfer Agent Ltd, 179-180. DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020.

Members who are holding shares in dematerialised form and have not registered their email address with Depository Participants ('DPs') are required to register the email address with their respective DPs. The manner of casting votes through remote e-voting or through e-voting during the AGM will be provided in the AGM Notice.

The Final Dividend of ₹ 5.50 per Equity Share of ₹ 10/- each, recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31st March, 2025, if declared at the 44th AGM, will be remitted, after deduction of tax at source, through electronic mode to those Members who have furnished their required bank details to the Company / the respective DPs. Members who have not yet provided these details and wish to avail the facility for emittance of dividend through electronic mode are required to provide the same to the respective DPs, if shares are held in dematerialised form, or to the Company, where shares are held in certificate form on or before 1st August, 2025. Members holding shares in the ertificate form may use the prescribed form ISR-1 for this purpose.

International Travel House Limited Abhishek Chawla

Date: 22nd July, 2025

Company Secretary

RAMCO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 47, P.S.K. Nagar, Rajapalayam 626108, Tamil Nadu Corporate Office: "Auras Corporate Centre", 6th Floor, No:98-A, Dr.Radhakrishnan Road, Mylapore, Chennai-600004. Ph .: 044-28478585 Fax: 044-28478597, e-mail: : lnvestors_grlevances@ramcoind.com CIN: L26943TN1965PLC005297, website: www.ramcoindltd.com NOTICE OF 60TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members,

1. Notice is hereby given that the Sixtieth Annual General Meeting of the Company ("60th AGM") will be convened on Wednesday the 13th August, 2025 at 11.30 a.m. through Video Conference ("VC") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars of Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, issued pursuant to conducting of Annual General Meeting.

including the Notice of 60th AGM, have been sent by e-mail on 21st July, 2025 to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants. A letter providing the web-link, QR code including the exact path of the Annual Report 2024-25 is sent to those shareholder(s) who have not registered their email address(es). Further, the same has been uploaded on the website of the Company i.e. www.ramcoindltd.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited: www.nseindia.com. The Notice of 60th AGM is also uploaded on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") www.evotingindia.com The instructions for e-voting and for participating in the AGM are provided in the

2. In compliance with the said Circulars, the web-link of the Annual Report

and Mobile Number may update the same by using Form ISR-1, available at the Company's website and by communicating the same to the Company at the address/E-Mail ID given below. Members holding shares in demat mode may

4. Members holding shares in physical mode and have not registered their E-Mail ID

contact their respective depository participant for the same. 5. The Cut-Off Date is 06-08-2025, for determining the eligibility of the shareholders to vote by remote e-voting or in the AGM.

Members holding shares in physical mode and members who have not registered

in Point No: 12(D) or (F) of the Notice convening the AGM.

their E-Mail ID with the Company / Depository Participant and the members who have acquired shares after the dispatch of the notice and holding shares as of Cut-Off Date, viz. 06-08-2025, may cast their vote through remote e-voting o through the e-voting during the meeting, by following the procedures mentioned

Members may also note:

Notice of the AGM.

a) Voting Rights shall be in proportion to the Equity Shares held by the Members as on the Cut-Off Date

b) Remote e-voting will commence at 9.00 A.M. on Sunday the 10th August, 2025 and end at 5.00 P.M. on Tuesday the 12th August 2025. During this period, Members holding shares as on the Cut-off Date, may cast their votes

their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the

Those Members, who will be present in the AGM through VC and have not cast

) Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM through VC but shall not be entitled to cast their votes again.

e) If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at Toll Free Number 1800 210 99 11.

For RAMCO INDUSTRIES LIMITED S. BALAMURUGASUNDARAM **COMPANY SECRETARY & LEGAL**

Corporate Office : RAMCO INDUSTRIES LIMITED 98-A, Dr. Radhakrishnan Road Mylapore, Chennai 600 004 E-Mail: investors_grievances@ramcoind.com

23.07.2025



epaper.financialexpress.com

Continued from previous page...

Place: Mumbai

Date: July 22, 2025

१) बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पुराना लॉकर नया

2668AX0166

लॉकर नं.

145A

श्री चंद्र मोहन धमीजा

मोबाइल नंबर— 9415127130

मोबाइल नंबर— 9415127130

नगर कानपुर उत्तर प्रदेश 298006

मोबाइल नंबर— 9415127130

मोबाइल नंबर— 9415127130

मोबाइल नंबर- 9415127130

मोबाइल नंबर— 9415127130

मोबाइल नंबर- 9415127130

मोबाइल नंबर— 9415127130

करने की हकदार है।

भी सम्मिलित होगा।

स्थान : कानपुर (उत्तर प्रदेश)

दिनाँक : 22-07-2025

ऋण के तहत ब्याज भी देय है।

प्रोटेक्टिव पैकेजिंग

श्रीमती पुनम धमीजा

2. श्री राहल धमीजा

निवास पता 33 / 4 ब्लॉक नंबर- 4 गोविंद

निराला नगर, कानपुर उत्तर प्रदेश 208014

निवास पता- 33/4 ब्लॉक नंबर-4 गोविंद

निराला नगर, कानपुर उत्तर प्रदेश 208014

निवास पता : 33 / 4, ब्लॉक नंबर-4, गोविंद

निराला नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश 208014

निवास पता : 33 / 4, ब्लॉक नंबर-4, गोविंद

निराला नगर, कानपुर उत्तर प्रदेश 208014

नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश 298006

नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश 298006

ईमेल- DHAMLJARAHUL72@GMALL.COM

यह सुचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक अ-बैंकिंग वित्तीय

कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है, इसका पंजीकृत

कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टावर ए, 11वां तल, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल,

मुंबई- 400013 में है और नई दिल्ली में अन्य स्थानों के अलावा एक शाखा कार्यालय

("शाखा") भी है। कि दिनांक 24.11.2023 के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी विधि

न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के साथ पठित

धारा 230 से 232 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत टाटा कैपिटल

फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड

("टीसीसीएल") को हस्तांतरणकर्ता के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") को

हस्तांतरिती के रूप में व्यवस्था की योजना ("उक्त योजना") को विधिवत मंजुरी दे दी है

इसके अनुसार, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (हस्तांतरक कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ

01.01.2024 से सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभों, ब्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदा.

रियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभृतियों आदि के साथ एक चालु कंपनी के रूप में टीसीएल में

विलय हो गई हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित

सभी सुविधा दस्तावेज और उसके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर

दिए गए और इस प्रकार टीसीएल इसके अनुसार (उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं) से दावा

रु. 82,83,695 / — (रुपये बयासी लाख तिरासी हजार छह सौ पंचानबे मात्र) की एक राशि

19-06-2025 के अनुसार, टाटा कैपिटल लिमिटेड (जिसे आगे "टीसीएल" कहा जाएगा) हेतु

ऋण खाता संख्या TCFLA0371000011410251 और TCFLA0371000012106343

और TCFBL0371000011276784 के माध्यम से 28.04.2022, 15.06.2023 और

17.01.2022 को देय है, साथ ही टीसीएल द्वारा आपको दिए गए होम इक्विटी (एलएपी)

हमारे बार-बार के अनुरोध के बाद भी, आपने अपने खाते में बकाया राशि के लिए किसी

अंशराशि का भुगतान नहीं किया है, जिसे टीसीएल के बकाये का भुगतान करने में आपकी

चूक के कारण आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 03-06-2025 को एनपीए खाते के

रूप में वर्गीकृत किया गया है। मैंने स्वयं, टाटा कैंपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी की

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण और प्रतिभति

हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 13 (2)

के तहत दिनांक 19-06-2025 को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें आपको सूचना

के 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज और लागतों सहित रु. 82,83,695 / – के उक्त ऋण

का भुगतान करने का आह्वान किया गया था, ऐसा न करने पर टीसीएल अधिनियम की

धारा 13(4) के तहत विस्तृत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगी, जिसमें नीचे

वर्णित संपत्ति पर टीसीएल के पक्ष में आपके द्वारा बनाए गए प्रतिभृति हित का प्रवर्तन करना

मकान संख्या 33 / 4, ब्लॉक संख्या 4, स्कीम संख्या ।, क्षेत्रफल 155 वर्ग गज, गोविंद नगर,

कानपर नगर, उत्तर प्रदेश - 208006, चंद्र मोहन धमीजा, किरण बाला, विनोद बाला, बीना

अरोडा, विजय कुमार धमीजा के पक्ष में दिनांक 30.03.2007 के विक्रय विलेख में अधिक

पश्चिम— क्वार्टर नं. 33 / 5, 6 सीढ़ियाँ

पूर्व— 30 फीट सड़क

उत्तर- क्वार्टर नं 33/3

दक्षिण— 10 फीट सडक

दिनांक 19-06-2025 की माँग सूचना की प्रभावी प्राप्ति सूनिश्चित करने के उद्देश्य से, हम

वर्तमान प्रकाशन के माध्यम से उक्ते सूचना को प्रसारित कर रहे हैं। आपको एतदद्वारा उपरा.

क्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गेत इस सूचना के 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त दायित्व

का निर्वहन करने को कहा जाता है तथा ऐसा करने में विफल रहने पर टीसीएल उपरोक्त

अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगी।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार,

आप उपरोक्त प्रतिभत परिसंपत्तियों को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित

टाटा कैपिटल लिमिटेड

हस्ताः /-

विवरणपरक ढंग से प्रस्तुत तथा निम्नानुसार परिसीमित है :--

कार्यालय के पते पर भी— 127/यू/1 प्रोबेशन होम

कार्यालय के पते पर भी : 127/यू/1, प्रोबेशन होम

कार्यालय के पते पर भी – 127/यू/1 प्रोबेशन होम

कार्यालय के पते पर भी — 127/यू/1 प्रोबेशन होम

नगर कानपुर उत्तर प्रदेश— 298006

TATA

) Bank of Baroda

MUFG

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the offer, MUFG Intime India Private Limited at

monikaalcobev.smeipo@in.mpms.mufg.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the offer quoting full

name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid

cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY

Disclaimer: Monika Alcobev Limited is proposing, subject to market conditions, public offer of its equity shares and had filed the

Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. The Prospectus is available on the website of the Book Running

Lead Manager at ib.marwadichandaranagroup.com, website of the BSE i.e., www.bseindia.com and website of Issuer Company at

www.monikaalcobev.com; Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors

shall refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page of 30 the Prospectus, which has

been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of,

"U. S. persons" (as defined in the Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not

लॉकर धारकों को नोटिस-बैंक ऑफ बड़ौदा लॉकर के किराए का भूगतान करने में चूककर्ता

यह हमारे मुल्यवान संरक्षकों की जानकारी के लिए है, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, कौशाम्बी शाखा, में लॉकर किराए पर लिए हैं और अनुबंध का उल्लंघन किया है। आरबीआई / बैंकों के

दिशा—निर्देशों के अनुसार लॉकर धारकों को उनके दर्ज पते पर भेजे गए नोटिस बिना डिलीवर किए या जवाब दिए वापस आ गए हैं। लॉकर धारकों से उनके दर्ज पते पर व्यक्तिगत रूप से

संपर्क करने के प्रयास भी व्यर्थ गए और उनका वर्तमान ठिकाना पता नहीं चल सका। इस प्रकार, कोई विकल्प न होने के कारण, यह नोटिस नीचे दिए गए सभी व्यक्तियों को दिया जा रहा है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 90 दिनों की अवधि के मीतर बैंक ऑफ बड़ौदा, कौशाम्बी शाखा,से संपर्क करके बैंक का बकाया चुकाएं, ऐसा न करने पर बैंक अपनी लागत, जोखिम और

जिम्मेदारी पर लॉकर को तोड़ देगा और बैंक इस कार्य के लिए बकाया किराया, लागत और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए वस्तुओं पर अपने ग्रहणाधिकार के अधिकार का प्रयोग करेगा।

कृपया ध्यान दें कि यदि लॉकर की तोड़ा जाता है और लॉकर समझौते के प्रावधानों के अनुसार उसकी सामग्री का निपटान किया जाता है, तो बैंक अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा और ग्राहक

optiemus

फोलियो

संख्या

0000660

दिनांक: २२ जुलाई, २०२५ स्थान : नोएडॉ (उ.प्र.)

आमंत्रित की जाती हैं।

परोहर जमा साहिः (ईएमडी)*

नेविदा प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)*

नेविदा बिक्री की अवधि (ऑनलाइन)

बोली सदम

नेविदा मात्रा

अनुमानित लागतः

रतावेज की लागत"

ए-137 डी.डी.ए. पलैट्स, न्यू रंजीत नगर,

नर्ड दिल्ली-110008

द्वारा उठाए गए किसी भी लागत, हानि या दायित्व (लॉकर की सामग्री की किसी भी क्षति और / या हानि सहित) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF MONIKA ALCOBEV LIMITED.

subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

अखिलेश सक्सेना

टाटा कैपिटल लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वांल, टावर ए, पेनिनसुला बिज्नेस पार्क,

गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई- 400013

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय

परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधि

नियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत

Address: C-101, 247 Park, 1st Floor, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India.

Telephone: +91 810 811 4949 E-mail: monikaalcobev.smeipo@in.mpms.mufg.com

17-18, ऊपरी भूतल, शिप्रा कृष्णा अजूर, कौशांबी, गाजियाबाद-201010

फोन: 8929163240 ई-मेल - KAUMOR@bankofbaroda.com

10-09-2021

शेयरधारक का नाम

नरेश कुमार गर्ग

प्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आगे बढ़ेगी।

देय तिथि अतिम सूचना अतिदेय राशि (रू. में)

18-03-2025

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड

CIN: L64200DL1993PLC054086

पंजीकत कार्यालय: के -20, दसरी मंजिल, लाजपत नगर - ॥ नई दिल्ली-११००२४

कॉर्पोरेट कार्यालय: डी-348, सेक्टर-63, गोएडा, उत्तर प्रदेश-201307

वेबसाइट: www.optiemus.com | ईमेल: info@optiemus.com | फोन: 011-29840906

प्रेस विज्ञापन

एतद हारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित क्षेयर प्रमाणपत्र को जाने/गुम हो जाने की सुचना दी गई है और ऐसे क्षेयर प्रमाणपत्रों के दावेदार ने इष्किकेट क्षेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी/आरटीए को

संख्या(ए)

29705 - 29712

कोई भी व्यक्ति जिसके पास उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्र के संबंध में कोर्ड दावा(वें) है इस मोटिस के प्रकारत

b 15 दिनों के भीतर इस तरह के दावे को 'ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड' कंपनी के पास डी-348.

सेक्टर-६३, नीएडा, उत्तर प्रदेश-२०१३०७ में स्थित उनके कॉपॉरेंट कार्यालय में दर्ज कराना चाहिए या info@optiemus.com पर लिखें, जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

Container Corporation of India Ltd.

निविदा संख्या: CON/AREA-1/TECH/RST-25/2025

रु.10.00.000/- (कॉनकॉर के ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम सं

रु. 1,000 कॉनकॉर के ऑनलाइन गुगतान गेटवे के माध्यम से

ठ. 3540/- (कर सहित) ऑनलाइन मगतान के माध्यम से

23.07.2025 को 15:00 बजे से 19:08:2025 (17:00 बजे तक).

खुली निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग मोड)

कॉनकॉर के निर्दिष्ट टर्मिनलों पर 25 लोखेड रीच स्टैकर्स (आरएसटी) के डिजाइन, निर्माण, आपुर्ति

और कमीशनिंग के लिए ई-टेंडरिंग मोड के माध्यम से दो पैकेंट निविदा प्रणाली में ऑनलाइन ई-बॉर्ल

रु. 104,72 करोड (कर सहित)

06.08.2025 को 11:00 बजे

20.08.2025 को 17:00 बजे

21.08.2025 को 11:00 बजे

ई-भगतान के माध्यम से पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.com य

procure.gov.in या www.tenderwizard.com/CCIEपर लॉग इन करें । बोलीदाताओं से अनुरोध है कि

नेयमित रूप से वेबसाइट देखें। कॉनकॉर बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं क

अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पूरी जानकारी के लिए www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग इन करें। जीजीएम/पी एड एस/क्षेत्र—1

दिनांक 17.07.2025 तक

विशिष्ट संख्या(एँ)

2969601 - 2970400

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के लिए

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

शाखा प्रबंधक

शेयरों की

800

विकास चंद्रा

板.11,564/-

Investor Grievance E-mail: monikaalcobev.smeipo@in.mpms.mufg.com

Website: www.in.mpms.mufg.com; Contact Person: Shanti Gopalkrishnan

SEBI registration number: INR000004058; CIN: U67190MH1999PTC118368

MUFG Intime India Private Limited

(Formerly Link Intime India Private Limited)

On behalf of Board of Directors

For, Monika Alcobev Limited

Kunal Bhimji Patel

Managing Director

DIN: 03039030

Sd/-

by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:

प्रपन्न जी के लिए परिशिष्ट

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

मैसर्स श्रिया ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड,

नई दिल्ली में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कार्यरत

(भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के विनियमन 36 ए (1) के तहत

(कॉर्पो रेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

श्रिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड में समाधान योजना प्रस्तुत करने कें लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति

हेत आमंत्रण के संबंध में अधोहरताक्षरी द्वारा दिनांक 08.07 2025 को जारी पूर्व सार्वजनिक घोषणा के

स्थान पर, यह सुचित किया जाता है कि ईओआई प्रस्तुत करने की संशोधित समय—सीमा निम्नानुसार

प्रासंगिक विवरण

ं इंओआई जमा करने के लिए ईमेल आईडी की प्रक्रिया | cirp.shriyaoverseas@gmail.com

नोटः फॉर्म जी दिनांक 08.07.2025 के विवरण और शर्ते यथावत रहेंगी। इसके अलावा, मीजुदा

संभावित समाधान आवेदकों (ऑ) जिन्होंने 23.07.2025 के फॉर्म-जी के जवाब में 08.07.2025 तक

दिनांक : 23.07.2025 असाइनमें ट का प्राधिकरण (एएफए): AA1/12047/02/311225/107749

फॉर्म नं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

क्षेत्रीय निदेशक / केंद्र सरकार, पर्वी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम,

2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के संबंध में

मेसर्स तेजरैक्ट फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74999DL2021PTC390063) जिसका

पंजीकृत कार्यालय मायडेस्क को-वर्किंग, नौरंग हाउस, के.जी. मार्ग, उत्तर पूर्व, दिल्ली - 110001, भारत में

अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा कर दी है, उन्हें फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

10. अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि

15. समाधान योजना प्रस्तृत करने की अंतिम तिथि

है, के संबंध में।

12 अनंतिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि

14. सूचना ज्ञापन, मृल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान अनुरोध जारी करने की तिथि

13. संभावित समाचान आवेदकों की अतिम सुनी जारी करने की तिथि

31.07.2025

10.08.2025

15.08.2025

25.08.2025

30.08.2025

30.09.2025

श्री सौरम मालपानी (समाधान प्रोफेशनल)

एएफए वैधता: 31.12.2025

श्रिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

पंजीकृत सं : IBB/IPA-001/IP-P01265/2018-2019/12047

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय परिसर, मण्डोला विहार, गाजियाबाद-201102 ईमेल:-cdbaghpat02@upavp.com

अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण की सूचना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड बागपत-०२

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के 40000 नग पौधों का मियाँवाकी पद्धति से प्राकृतिक मुलवन स्थापन का कार्य ट्–बिङ सिस्टम के अन्तर्गत ऑनलाईन ई–निविदा सचना सं0--518 / जी--7 / 22. दिनांक 22.07.2025 द्वारा आमंत्रित की गयी है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट www.upavp.in एवं कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखा जा सकता है। अधिशासी अभियन्ता

पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड सीआईएन: L27109UP1985PLC006998 पंजीकृत कार्यालय : बी-10 वीआईपी कालोनी, सिविल लाइंस, रामपुर यूपी-244901 नैगम कार्यालय : 201 और 202 द्वितीय तल रतन ज्योति बिल्डिंग, 18, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008; फोन: 011-47631025,26,27

सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी—पीओडी / पी / सीआईआर / 2025 / 97 दिनांकित 02 जुलाई, 2025 के अनुसरण में, कम्पनी शेयरधारकों के लिए भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनुरोध पुनः प्रस्तुत करने हेतु "एक–बार विशेष विंडा" (वन–टाइम स्पेशल विंडो) यह विशेष विंडो 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी, और यह विशेष रूप से उन

कृपया ध्यान दें कि इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुनः प्रस्तुत किए गए शेयर केवल डीमैट रूप में ही प्रक्रमित किए जाएंगे। पात्र शेयरधारक अपने स्थानांतरण अनुरोध अपेक्षित दस्तावेजों के साथ कम्पनी अथवा उसके रजिस्ट्रार

> जी–65 – बाली नगर – नई दिल्ली-110015 फोन: 011-47671214, 206



दिनांक : 22-07-2025

समसामयिक अध्ययन केंद्र प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय

वार्ता

एक्सॅडॅस ऑफ 1942 इन

आप सादर आमंत्रित हैं

वक्ताः डॉ. एल. गीतारानी देवी

फेलो, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय

दिनांकः 24 जुलाई 2025, समयः अपराहन 3:00 बजे

संगोष्ठी कक्ष, पुस्तकालय भवन प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय

अपना नाम जोड़ने के लिए कृपया हमें ईमेल करें: ccs2nmml@gmail.com

CIN -L18101DL1986PLC024058 Regd. Off: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor,

SEASONS TEXTILES LIMITED

Lajpat Nagar - III, New Delhi -110 024 Phone: 0120-4690000, Fax: 0120-4351485,

Website: www.seasonsworld.com, E mail: cs.stl@seasonsworld.com NOTICE OF 39[™] ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

business as set out in the Notice of the AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company, at 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110 024. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act) and

Further, in accordance with the aforesaid Circulars, the Notice convening the AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 has been electronically sent to all the shareholders on Monday, July 21, 2025 whose email addresses are registered with the

- 1. Pursuant to provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility of remote e-Voting to the shareholders, to exercise their right to vote to the resolutions proposed to be passed at the AGM. The facility of casting votes by the members using an electronic voting system and for participating in the AGM through VC/OAVM facility along with e-Voting during the AGM will be provided by Central Depository Services (India)
- The remote e-Voting period commences on Saturday, August 16, 2025 (at 10:00 A.M.IST). Voting through remote e-Voting will not be permitted beyond August 18, 2025 (at 05:00 PM IST).. E-Voting shall also be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-Voting shall be able to vote at the AGM.
- The cut-off date for determining eligibility of members for voting through remote e-Voting and e-Voting at the AGM is Tuesday, August 12, 2025. A person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on the Tuesday, August 12, 2025 (cut-off date") shall only be entitled
- Members who have acquired shares after the dispatch of the Integrated Annual Report for the financial year 2024-25 through electronic means and before the cut-off date are User ID and Password for casting the vote.
- The instructions for remote e-Voting and e-Voting during the AGM for shareholders holding shares dematerialised mode, physical mode, and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice convening the AGM. Instructions for attending the AGM through VC/OAVM are also provided in the
- Members who have cast their vote through remote e-Voting can participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Pramod Kothari (FCS 7091, CP 11532), Proprietor of M/s. Pramod Kothari & Co Practicing Company Secretaries, as
- the Scrutinizer for conducting voting process in a fair and transparent manner. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer the Frequently Asked Questions of shareholders and the e-Voting user manual for shareholders
- helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911. on Company's website at www.seasonsworld.com, on the website of the Stock Exchanges

where the equity shares of the Company are listed, BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of CDSL at www.evotingindia.com Shareholders holding shares held in electronic form, and who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the details in your demat account, as per the process advised by their DP. The shareholders are requested to note that as per the provisions of the SEBI, it is mandatory

Contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. The shareholders may register/update the said details in the prescribed Form ISR-1 and

other relevant forms with Company's Share Transfer Agent i.e. Skyline Financial Services Private Limited. Further, the shareholders can also access the relevant forms on the

Company will remain closed from Wednesday, August 13, 2025, to Tuesday, August 19, 2025 (both days Inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Saurabh Arora

Date: July 22,2025

ईमेल:- compliances@pmcfincorp.com वेबसाइट : www.pmcfincorp.com भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो के संबंध में सूचना

मामलों पर लागू होगी जहां मूल हस्तांतरण अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से पहले प्रस्तुत किए गए थे, और दस्तावेजों, प्रक्रिया में किसी कमी या किसी अन्य कारण से वापस अथवा अस्वीकार कर दिए गए थे।

और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को निर्धारित अवधि के भीतर यथाशीघ्र ईमेल पते पर कम्पनी अथवा आरटीए के पास ऊपर दिए गए ईमेल पते पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड इंडस शेयरश्री प्राइवेट लिमिटेड

कम्पनी सचिव 201 और 202 द्वितीय तल रतन ज्योति बिल्डिंग, 18, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008; **फोन :** 011-47631025 ईमेल : compliances@pmcfincorp.com

हस्ता. /-कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : दिल्ली

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली राज्य" से "महाराष्ट्र राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए गुरुवार, 26 सितंबर, 2024) को आयोजित 3री वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे

अपनी आपत्ति टउअ-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके पंजीकृत कार्यालय मायडेस्क को-वर्किंग, नौरंग हाउस, के.जी. मार्ग, उत्तर पूर्व, दिल्ली 110001, भारत में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपित के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पतेः बी-2 विंग, 2 रा तल पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003,भारत में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे औरसाथ ही कंपनी की ईमेल आईडी cs@tezzract.com पर भी ईमेल करें तेजरैक्ट फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के लिए

विवेक वदकुटे राघवन (प्रबंध निदेशक)

डीआईएन: 09818628

स्थान: दिल्ली दिनांक: 23/07/2025

International ™ **Travel House** इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड

सीआईएनः L63040DL1981PLC011941 पंजीकृत कार्यालयः ट्रैवल हाउस, टी – 2, सामुदायिक केंद्र, शेख सराय, चरण – 1,नई दिल्ली – 110 017 टेलीफोनः 011-2601 7808

ई-मेलः Investor_TH@ith.co.in वेबसाइटः www.internationaltravelhouse.in

44वीं वार्षिक आम बैठक

सदस्यों को सुचित किया जाता है कि कंपनी की 44वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') **मंगलवार, 19 अगस्त, 2024 को सुबह 11:00 बजे** (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके तहत नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनरूप

नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, 44वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम नोटिस') की सूचना और रिपोर्ट एवं लेखा 2025 केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएँगे जिन्होंने कंपनी / एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') या डिपॉजिटरी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <u>www.internationaltravelhouse.in</u> और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

जिन सदस्यों के पास प्रमाण पत्र फॉर्म में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी / आरटीए के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म में निर्धारित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर—1 (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) जम करके अपना ई—मेल पता पंजीकृत करें, जो कि helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर ई-मेल के माध्यम से आरटीए को या डाक द्वारा एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड 179—180, डीएसआईडीसी शेड, तीसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज—1, नई दिल्ली— 110020 पर भेजें।

जिन सदस्यों के शेयर डीमैट रूप में हैं और जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी') के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें अपने संबंधित डीपी के पास ईमेल पता पंजीकृत कराना होगा। एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग या ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका एजीएम नोटिस में दिया जाएगा।

31 मार्च. 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित 10 / -रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 5.50 रुपये का अंतिम लाभांश, यदि 44वीं एजीएम में घोषित किया जाता है, तो स्रोत पर कर की कटौती के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को प्रेषित किया जाएगा जिन्होंने कंपनी / संबंधित डीपी को अपने आवश्यक बैंक विवरण प्रस्तुत किए हैं। जिन सदस्यों ने अभी तक ये विवरण प्रदान नहीं किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के प्रेषण की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें संबंधित डीपी को, यदि शेयर डीमैट रूप में हैं, या कंपनी को, जहां शेयर प्रमाण पत्र के रूप में हैं, 1 अगस्त, 2025 को या उससे पहले प्रदान करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फॉर्म आईएसआर—1 का उपयोग कर सकते हैं।

इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड अभिषेक चावला

कंपनी सचिव

दिनांकः 22 जुलाई, 2025

SRM Energy

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

NOTICE INVITING TENDER

Tender Notice No. 05/DHC/CT/HK/2025-27

CONTRACT FOR ENGAGEMENT OF **CONSERVANCY, HOUSEKEEPING (Mechanized)** AND SANITATION SERVICES AT HIGH COURT OF DELHI, SHER SHAH ROAD, NEW DELHI-110003.

Sealed tenders, with 90 days validity from the date of opening of tenders are invited from reputed/eligible agencies for providing conservancy, housekeeping (mechanized) and sanitation services at High Court of Delhi, Sher Shah Road, New Delhi-110003, for carrying out the work as per specifications of the tender for the period from 01.12.2025 to 30.11.2027. Number of personnel required is as under:

Housekeepers 298 (Unskilled) [not less than (i) 172 male (in first shift) from 7.00 a.m.

(ii) 24 female (in first shift) from 8.00 a.m. to 4.00 p.m.; (iii) 14 female (in second shift) from 10.00 a.m. to 6.00 p.m.; and (iv) 88 male

(in second shift) from 1.00 p.m. to 9.00 p.m.] **Supervisors** 25 personnel (semi-skilled) (including 6 female)

[not less than (i) 11 male (in first shift) from 7.00 a.m. to 3.00 p.m.; (ii) 04 female (in first shift) from 8.00 a.m. to 4.00 p.m.;

(in second shift) from 1.00 p.m. to 9.00 p.m.] Copy of the terms and conditions of the tender may be obtained on payment of Rs. 5000/-(Rupees Five Thousand Only) (non-refundable), in the form of pay order/demand draft only drawn in favour of "Registrar General, High Court of Delhi" from the Administrative Officer

(iii) 02 female (in second shift) from 10.00 a.m. to 6.00 p.m.; and (iv) 08 male

(Judicial), Caretaking Branch, Room No. 06, Ground Floor, Administrative Block, High Court of Delhi, Sher Shah Road, New Delhi-110003, in person on any working day between 3.00 p.m. to 4.00 p.m. up to 14th August, 2025. No cash payment will be accepted. Detailed notice inviting tender, bid form and necessary information are also available on the official website of the High Court of Delhi i.e. www.delhihighcourt.nic.in, which can be

downloaded and used by the Bidder. In such case, the Bidder must enclose Rs. 5000/- (Rupees

form of Pay Order/Demand Draft in favour of "Registrar General, High Court of Delhi" in addition to EMD, failing which the tender will straightaway be rejected. The tender complete in all respects should reach the Administrative Officer (Judicial), Receipt

& Despatch (Establishment-II Branch), 3rd Floor, 'S' Block, High Court of Delhi, Sher Shah Road, New Delhi-110003 before the date and time as mentioned in the schedule below: **SCHEDULE** 23.07.2025 1. Date of Publication

18.08.2025 by 04.00 p.m. 25.08.2025 at 03.00 p.m. 15.09.2025 at 03.00 p.m. 01.12.2025

> (Rajesh Kumar) Assistant Registrar High Court of Delhi, New Delhi

डाक मतपत्र/ई-वोटिंग की सूचना

पंजीकृत कार्यालयः कमरा नं0. 2, प्राचड फ्लोर, 1ए मॉल रोड, शांति कूंज, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 टेली. नंदः 011-4576 8283 | वेजसाइटः www.srmenergy.in | ईमेलः info@srmenergy.in

एसआरएम एनर्जी लिमिटेड

CIN L17100DL1985PLC303047

सदस्यों को एतदहारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की पारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)

नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22, कींपीरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों, सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 ('सूचीबद्धता विनियम'), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठक पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के अनुसरण में कंपनी ने 22.07.2025 को व्याख्यात्मक विवरण के साथ ठाक मतपत्र सुचना ("सुचना") मेजने का काम पूरा कर लिया है। ऐसी सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिन्होंने 18 जुलाई, 2025 ('कट-ऑफ तिथि') तक कंपनी या अपने दिपॉजिटरीज के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत कराया है। यह सूचना निम्नलिखित गमलों पर इलेक्ट्रॉनिक मध्यम ∕ रिमोट ईल्वोटिंग प्रक्रिया द्वारा शेयरधारकों का अनुगोदन प्राप्त कंपनी की परिसंपत्तियों / उपक्रमों को बेचने या उनका निपटान करने की स्वीकृति, जो मैसर्स

एस.आर.एम. एनजी तमिलनाड् प्राइवेट लिमिटेड (जो कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी लिमिटेड, जो कि होल्डिंग कंपनी है, को की जाएगी।; और

बी. मैसर्स स्पाइस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ("एसईपीएल"), (होल्डिंग कंपनी) के साथ प्रस्तावित सम्बद्ध पार्टी लेनदेन(नी) के लिए मंजूरी।

सदस्यों को एतद्द्वारा गुचित किया जाता है कि: संगत एमसीए परिपत्रों के गाव्यम से डाक मतपत्र सूचना और डाक मतपत्र फार्म की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

सूचना में निर्धारित विशेष व्यवसाय का निष्पादन सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-बॉटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('रिमोट ई-बोटिंग') के द्वारा किया जाना है। बोर्ड ने डाक गतपत्र/ई-वोटिंग प्रक्रिया की आयोजित करने के लिए श्री रातीश कुमार निरंकर,

पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ9605 एवं सीपी नं. 19993) को संवीक्षक के रूप मे रिमोट ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 (प्रात: 9.00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होशी और शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 (सार्व 5.00 वर्ज (आईएसटी) समाप्त होगी।

इस अवधि के दौरान, केवल वे सदस्य कथित प्रस्ताव पर अपना वोट देने के लिए पात्र होंगे विनके नाम कट-ऑफ विधि सर्थात् शुक्रवार, 18 जुलाई, 2025 को विधांजिटरीज हारा तैयार किये गये लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होंगे। सीडीएसएल ई-बोटिंग सिस्टम से ई-बोटिंग के संबंध में कसी भी प्रकार की पूछताछ या

परेशानी के लिए आप ई-मेल: helpdesk.evoting@cosingia.com पर लिख सकते हैं या टोल फ्री नं

डाक मतपत्र सूचना कंपनी की वेबसाइट http://www.smenergy.in/Data/Documents/SRM%20Energy%20-%20PB4%20-%20Notice.pdf स्टॉक एक्सचेंज, अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट https:// www.bseindia.com/ और सीडीएसएस की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर भी उपलब्ध है। ौतिक प्रारूप में शेवर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी/आरटीए के पास पंजीकृत नहीं कराया है, वे सेबी भास्टर परिपन्न दिनांक 23 जून, 2025 के संदर्भ में अपना केवाईसी पूरा करके इसे पंजीकृत करा सकते हैं। सदस्यगण केवाईसी फॉर्म, निर्देश आदि निम्नलिखित लिंक http://www.smenergy.in/Home/InvestorRelations रो डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्यगण जिनके शेयर डिमेट मोड में हैं, वे आवयकता पड़ने पर अपने ई-मेल पता/अन्य विवरण अपडेट करने के लिए अपने दियांजिटरी प्रतिभागी से संपर्क कर सकते हैं।

हाक मतपत्र का परिणाम वोटिंग अवधि की समाधित से 48 घंटे के भीतर, अर्थात रविवार, 24 अगस्त, 2025 (सार्य 5:00 बजे (आईएसटी) या उससे पहले घोषित किया जाएगा और इसे संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट http://www.smenergy.in/Data/Documents/SRM%20Energy%20-%20PB4%20-%20Notice.pdf पर भी प्रदक्षित किया जाएगा और इसकी सवना बीएसई लिमिटेड एवं सीडीएसएल को भी दी जाएगी। बोर्ड के आवेश से

कृते एसआरएम एनर्जी लिपिटेड इस्ता/-(पंकचा गुप्ता) कंपनी सचिव एवं अनुपासन अधिकारी दिनांकः 22 जुलाई, 2025

epaper.jansatta.com

2. Last Date & Time for submission

5. Date of commencement of work

of Bids along with EMD

3. Opening of Technical Bids

4. Opening of Financial Bids

स्थानः नई दिल्ली

1800 21 09911 पर कॉल कर सकते हैं।

ईमेल : rs.kushwaha@indusinvest.com कृते पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड

द्वारा आयोजित

लाइफ़ नैरेटिव्स

तीन मृर्ति भवन, नई दिल्ली-110011

सभी का स्वागत है।

cbc09142/12/0012/2526

SEASONS

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Seasons Textiles Limited will be held on Tuesday, 19th August 2025, at 12:30 P.M, through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OVAM") facility, to transact the

Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 extension for holding AGM through VC and Master Circular No. SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133. dated October 03, 2024 issued by SEBI, along with other applicable Circulars issued by the MCA and SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars') the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

Company and/or Depository Participant(s) ('Dps").

- Limited (CDSL)
- to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting at the AGM.

requested to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted for obtaining the

available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at no.: (022) 4886 7000 or send a request to Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at The Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 are made available

for all shareholders holding shares in physical form to furnish PAN, Choice of Nomination,

Company's website at www.seasonsworld.com Notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the

By order of the Board For Seasons Textiles Limited Company Secretary & Compliance Officer Place: New Delhi